(De In loca)

FINANCIAL EXPRESS



GIC HOUSING FINANCE LTD.

CORPORATE OFFICE / HEAD OFFICE: GICHFL, National Insurance Building, 6th Floor, J. T. Road, Next to Astoria Hotel, Churchgate, Mumbai, 400 020 Tel.: (022) 43041900 Email: corporate@gichf.com Website: www.gichfindia.com BRANCH OFFICE ADDRESS: 5/19, 1st Floor, Astoria Boulevard, Ashok Marg, Block 5, Sector 10, Raj Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh 201002 Authorized Officer Name: Kumar Saurabh Contact Details:8171428887 Office Tel: 1204995536 Branch mail Id: ghaziabad.ncr@gichf.co.in

BRANCH OFFICE ADDRESS: Unit 3001-02, MGF Metropolis Mall MG Road, Gurgaon-122002. Office Tel: 0124-4008280, 4008208.4008202 Authorized Officer Name: Kumar Sawrabh Contact Details:9540200011 gurgaon@gichfindia.com

BRANCH OFFICE ADDRESS: Plot No. C-1,2,3, 511, 5th Floor, PP Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 Ph. 011-46019716 Contact Details: Abhishek -98734 91527. Branch mail ld: pitampura@gichf.co.in

BRANCH OFFICE ADDRESS :: F-15 & F-16, 1st FLOOR, MANISH GLOBAL MALL, OPPOSITE MOUNT CARMEL SCHOOL, SECTOR- 22, DWARKA, NEW DELHI- 110075 Office:011-41530949 Contact Details: Lohit V. Tata -98762 64551 Branch mail ld: lohit.v@gichf.com

MEGA E-AUCTION SALE NOTICE

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of GIC Housing Finance Ltd. (GICHFL), under Securitization & Reconstructions of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued Demand Notice to following Borrowers/Mortgagors callingupon them to repay the outstanding due amount mentioned in the said notices. However, The Borrower/Mortgagor having failed to repay the said due amount, the undersigned has taken PHYSICALPOSSESSION of the following property in exercise of powers conferred U/s 13(4) and U/s 14 of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

Sr. No.	Loan File No/Name of the Borrower and Co Borrower	Property Address GHAZIABAD BRANGH	Demand Notice Publication Date	Date of Physical Possession	Total Outstanding as on 20.05.2023 (Incl.POS, Interest and Other charges) (In Rupees)	(In Rupees)
	UP0620600000393/ 050054179 AMRENDRA SINGH	Flat No.SF-2, Second Floor with Roof Rights, Plot No. 66 A, Kallash Puram Colony-II, Raispur, Ghaziabad, U.P	07.08.2019	11.04.2023	2833293	16,46,840/-
2.	UP0620600001397/ 050082980	Flat No. UGF-04, Upper Ground Floor Back Side, Plot No. F-11, SLF Ved Vihar, Loni,	19.07.2021	11.04.2023	1619935	12,15,503/-
3	KAMLESH KUMAR GUPTA UP0620600001575 /050083558	Ghaziabad Flat No.FF-205, First Floor, Plot No.20 & 21, Khasra No. 90, Unione Residency, Village-	14.07.2022	11.04.2023	1230852	10,31,853/-
4	RUPESH KUMAR GUPTA/ANJALI UP0620600001477/ 050083272 SURENDER UJJAJNWAL/	Akbarpur Behrampur, Tehsil & Dist. Ghaziabad, U.P Flat No.T-4, Third Floor(with roof rights). Plot No.62, Khasra No-68, Akashwani Samiti Colony, Village Sadullabad, Pargana Loni. Ghaziabad		15.02.2023	1912693	12,37,959/-
	RENU UJJAINWAL UP0620600001447/050083703	Flat No.FF-1, First Floor, Plot No.38-A, Khasra No.1563 MI, Kailash Puram, Village,				
	CHANCHAL KUMAR/ SANDHYA S/KUSUM K	Raispur, Ghaziabad , UP 201001	19.07.2021	15.02.2022	2762688	19,16,500/-
	UP0620600001748/050089503 JITENDRA JENA/ SAUDAMINI JENA	House No.30(Part), Block-C, Sai Dham,Raj City Colony, Village-Khanpur Jabti, Loni, Ghaziabad UP, 201102	07.08.2019	15.02.2022	2401487	16,02,000/-
	UP0620600000415/050054879 MUNENDRA KUMAR	KH NO 1460, UGF 3, FLOOR NO: UGF, PLOT NO: H 2 AND 3, BALAJI ENCLAVE, RAISPUR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, PIN CODE: 201001	17.11.2021	26.12.2022	1129282	8,73,000/-
	UP0620600000831/050069693 RAJESH SHARMA/BABEETA SHARMA/HARISH SINGH TOMAR	KHASRA NO. 1461/2, BALAJI ENCLAVE, FLAT NO. F-1,FLOOR NO: 1ST,PLOT NO: F-64-65, RAISPUR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH,PIN CODE: 201002	19.07.2021	26.12.2022	1719193	12,65,000/-
	UP0620600000750/050067498 SANJAY KUMAR/ MEENAKSHI M	KHASRA NO 1552, KESHAV PURAM, FLAT NO. UGF-02, FLOOR NO: UPPER GR, RAISPUR, DASNA, UTTAR PRADESH,PIN CODE: 201002	19.07.2021	26.12.2022	1726432	12,78,000/-
10	UP0510610002623/050057547	GURGAON BRANCH Flat No. SF-2, Second Floor, With Roof Rights, Plot No: 16, 17A, 17B, 18, Khasra no. 1473,	22.00.2020	29.11.2022	2130468	42.00.000/
_	Awdesh Kumar/Niram Ray UP0510610002208/050047241	BalaJi Enclave ,Village: Raispur,Tehsil & dist. Ghaziabad,UP (500 sq. ft) Flat No: SF-3,Second Floor With roof rights,Plot No: 17,17A, 17B, 18,khasra no.1473,	22.09.2020			13,80,000/-
	Shardanand Mishra JP0510610003652/050074535	BalaJi Enclave ,Village: Raispur,Tehsil & dist. Ghaziabad,UP (500 sq. ft) Flat No.TF-02,Third Floor With roof rights, Plot No: 215,khasra no.1492,BalaJi Enclave	09.09.2021	29.11.2022		12,85,988/-
12	Pratibha Singh/Gopal Shah UP0510610003297/050069218	,Village: Raispur,Tehsil & dist. Ghaziabad,UP (400 sq. ft) Flat No: TF-2,Third Floor,Ambuj Tower,Out of khasra no.206/8,Village-Akbarpur,	09.09.2021	29.11.2022		10,22,103/-
	Ramesh Kumar Singh HR0510610005235/050093342	Behrampur, Tehsil & dist. Ghaziabad, UP, pincode -201001 (430 sq. ft) Flat no301 on Third Floor, Plot No: 126 out of khasra no.142 Min , Ward -11, Swaroop	09.09.2021	29.11.2022		10,51,000/-
	Vinod Singh Bhist/Anoop singh	garden ,Rajender park,Gurgaon,State: Haryana,Pin Code: 122001 (550 sq ft)	09.09.2021	07.11.2022	2606723	22,00,000/-
10	DL0510610005257/050093658 Karan Kaushik	Plot No: 65A.65B.65C & 65D.,Block -B,Third Floor front left side ,out of khasra no.10/8 & 10/9,Ward -136,Village -Matiala,mansa ram park,uttam nagar,Delhi-110059 (450 sq ft)	09.09.2021	28.10.2022	2909775	22,67,050/-
10 1	DL0510610002897/050062608 Prem Kumar/Kamlesh	Khasra no.15/12,Building Name: without roof right,House No: RZ-I-87-A,Floor No: TF BACK,Plot No: RZ-I-87-A,Mahavir enclave,Land Mark: Som bazar road ROAD,Village: Mirzapur,Palam Village,Mirzapur,Delhi,Pin code-110045 (400 sq ft)	09.09.2021	19.11.2022	1320056	12,69,817/-
''	DL0510610004960/050090055 Kamal Chourasiya/Kamni chaurasiyachaurasiya	Gut No: B-1447/1,Building Name: Ent 3rd Floor with roof right,House No: Old NO-B-41-A,Floor No: 3RD,old Plot No: 25 -26, Shastri Nagar,ward -73,land mark shastri nagar (North West Delhi),Shastri nagar,Delhi,pincode:110052(450 sq ft.)	09.09.2021	14.05.2022	2001262	18,81,000/-
18	HR0510610006004/050102979 Joginder Solanki/Sandeep Kumar (Gaurantor)	Flat No: 104,First Floor ,Plot No.17,Block -E,Village - Chauma,Dwarka express way,New palam vihar-2,Gurgaon,Haryana, pin -122001(500 sq ft)	09.09.2021	10.11.2022	2631130	20,64,742/-
	HR0510610005634/050098645 Arun Kumar	Flat no301, Third Floor ,Plot No:2995/A/31 & 2995/B/31, out of khasra no.7621/119, ward no.11, gali no.3, Jal vihar, Rajender park ,Gurgaon, Haryana ,pincode 122001(550 sq ft)	09.09.2021	14.11.2022	2534929	20,15,520/-
20	UP0510610005578/050098106 Sachin Kumar Bansal/Anjali Bansal	Flat no. 103,UG Floor ,Royal Tower,Ambuj City,Ward no.35, out of khasra no.199, land mark - Tigri gol chakkar ,Village - Akbarpur Behrampur, Loni, Ghaziabad,Uttar pradesh ,pincode -201001(575 sq. Ft.)	09.09.2021	29.11.2022	2359372	18,10,000/-
	UP0510610003214/050067625 MOHD IRFAN K	Building Name: Dlf Dilshad Extn Ii,house No: Ugf 1, floor No: Upper Gr,plot No: D 1,sector Ward No: Block D,land Mark: 100 Futa Rd,village: Bhopura,location: Ghaziabad,taluka: Loni,state: Uttar Pradesh,pin Code: 201001 (400 Sq Ft)	07.23.2021	25-02-2023	1797140	16,02,000/-
	UP0510610002983/050064017 SUSHEEL SINGH/POONAM CHAUDHARY	Gut No: Kh No-1539 East, building Name: Mig, house No: Sf-1, floor No: Sf, plot No: 31, street Name: Rk Puram-ii, land Mark: Sahnai Farm, village: Rayeespur, location: Ghaziabad, taluka: Dasna, state: Uttar Pradesh, pin Code: 201001 (500 Sq Ft)	06.28.2021	19-11-2022	1953809	14,80,000/-
	DL0510610004300/050082215 RENUKA GARG	Gut No: Kh No-11/15,building Name: Mansa Ram Park,house No: 103a,floor No: 3rd,plot No: N/a,street Name: 120a,street No: Blk C,sector Ward No: 127,land Mark: Hari Krishan Puplic Scho, village: Matiala,location: Matiala,taluka: Matiala,state: Delhi,pin Code: 110059 (900 Sq Ft)	06.28.2021	11/26/2022	3440963	30,00,000/-
24	UP0510610004120/050075840 DHRAM RAJ SINGH	Gut No: Plot D-001,building Name: Without Roof Rights,house No: Flat T-9,floor No: 3rd,plot No: D-001,street Name: Dlf Dilshad Extn Ii,sector Ward No: Block D,land Mark: 100 Futa Road,village: Brahampur Bhopura,location: Ghaziabad,taluka: Ghaziabad, state: Uttar Pradesh,pin Code: 201001 (450 Sq Ft)	06.28.2021	2/25/2023	1557489	13,46,625/-
	UP0510610003599/050073623 SUNIL MATHUR/DEEPAK MATHUR/RAMBHATI MATHUR /RAJENDRA KUMAR TYAGI	Gut No: .,building Name: Lig Flat,house No: Tf-03,floor No: Tf,plot No: C-107,street Name: Shalimar Garden,sector Ward No: .,land Mark: Everest School,village: Shalimar Garden Extn 2,location: Sahibabad,taluka: Loni,state: Uttar Pradesh,pin Code: 201005 (400 Sq Ft)	06.28.2021	22-11-2022	2082355	16,05,600/-
26	UP0510610002967/050063349 UDAY BHAN /POONAM SAHNI	Gut No: Kh No-1374,house No: Ug-3,floor No: Ugf,plot No: 35 36,street Name: Akshay Enclave,sector Ward No: Block-d,land Mark: Kailash Puram,village: Raispur,location: Ghaziabad,taluka: Ghaziabad,state: Uttar Pradesh,pin Code: 201001(484 Sq Ft)		19-11-2022	1772609	12,30,000/-
	DL0510610002770/050060757 CHADHA ASHU	Gut No: Old Plot No-263, building Name: Without Roof Right Southern Port, house No: Wz-502, floor No: Ent Ff, plot No: Wz-502, street Name: Rishi Nagar, sector Ward No: Shakurbasti, land Mark: Hari Mandir, village: Saleempur Mazra Madipur, location: Shakurbasti Rs, taluka: Delhi, state: Delhi, pin Code: 110034 (378 Sq Ft)	12.10.2019	6/26/2021	2291524	15,89,760/-
20	DL0510610004470/050084183 NARESH ARYA/MANJU ARYA	Gut No: N/a, building Name: Entire 3rd Floor, house No: E-259-a, floor No: Entire 3, plot No: E-259-a, street Name: Shastri Nagar, street No: E-259, sector Ward No: 73, land Mark: Shastri Nagar Metro Stat, village: Shastri Nagar, location: Shastri Nagar (north West Delhi), taluka: Shastri Nagar, state: Delhi, pin Code: 110052 (450 Sq Ft)	02.10.2020	9/18/2021	2502354	17,72,100/-
23	JP0510610002860/050060840 DEEPAK SHRIVASTAVA/ DURGA DEVI	Gut No: Kh No-1473, building Name: Mig, house No: Ff-3, floor No: Ff, plot No: 16 17a 17b 18, street Name: Balaji Enclave, land Mark: Indane Gas, village: Raispur, location: Ghaziabad, taluka: Ghaziabad, state: Uttar Pradesh, pin Code: 201001 (500 Sq Ft)	07.12.2021	19-11-2022	1910927	14,00,000/-
30	DL0510610004383/050079432 MAHESH GUPTA	GUT NO: KH NO 59/16,BUILDING NAME: RIGHT SIDE,HOUSE NO: L-115,FLOOR NO: FF,PLOT NO: L-115,STREET NAME: MOHAN GARDEN,SECTOR WARD NO: BLOCK L,LAND MARK: GEETA MANDIR,VILLAGE: HASTAL,LOCATION: UTTAM	11.02.2020	10-07-2021	2190423	19,26,540/-
	DI 0750600000722/ 050004525	NAGAR, TALUKA: UTTAM NAGAR, STATE: DELHI, PIN CODE: 110059 (405 sq ft) PITAMPURA BRANCH KH. NO. 20/6. PRESS ENCLAVE WITHOUT POOF PICHT LICE PACK SIDE. FLOOR				
	DL0750600000733/ 050091525 ARUN KUMAR/ KANCHAN	KH. NO. 39/6, PRESS ENCLAVE WITHOUT ROOF RIGHT, UGF BACK SIDE, FLOOR NO: UGF, PLOT NO. 51A, GALI NO-4, BLK-B, WARD NO. 122, LAND MARK: SANWARIA TILES SHOP, VILLAGE: HASTSAL, VIKAS NAGAR EXTN. PART-2, NEW DELHI-110059	14.07.2022	06.02.2023	1576593	13,76,000/-
3/ 1	DL0750600000138/ 050062435 PARUL TLAKHIWAL/ PRIYANK	KHASRA NO. 433, FF BACK RIGHT SIDE WITHOUT ROOF, FLAT NO. 103, FLOOR NO: FIRST, PLOT NO: I-26 AAND B, MOHAN GARDEN, LAND MARK: SUNIL DIARY, VILLAGE: NAWADA, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059	17.11.2021	13.12.2022	2542330	19,07,000/-
	UP0750600000503/050081610 RAVI R	KHASRA NO. 157A, SAI UPVAN, FLAT NO. F-1, FLOOR NO: FIRST, PLOT NO: B-29, LAND MARK: GAUR AVENUE CITY-1, VILLAGE: YUSUFPUR CHAKSHAHBERI, DADRI, UTTAR PRADESH, PIN CODE-201301	05.03.2020	25.02.2023	1351455	8,81,000/-
	Up0660600000064 VIKAS NEGI	DWARKA BRANCH FLAT NO. C-02, SECOND FLOOR, PLOT NO. D-1, KHASRA NO. 157-B, SAI UPVAN, YUSUFPUR CHAKSHABERI, TEHSIL- DADRI, GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR		25/11/2022	1334403	10,19,368/-
	VIIVAO NEOI	PRADESH- 201009 3 at the Web-Portal (https://www.bankauctions.in) from 3.00 PM TO 04:00 PM, with un				-,,

Last date of submission of Tender/Sealed Bid in the prescribed tender form along with EMD & KYC either through online mode or at the above mentioned GICHF Office at 29-06-2023 Further to this PUBLIC NOTICE for E-Auction Sale of the above said Assets / properties (in terms and conditions of the SARFAESI, Act 2002 and rules thereunder) GICHFL invites OFFERS EITHER

n sealed cover/s or in Online mode to purchase the said properties on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS". THE TERMS & CONDITIONS OF THE AUCTION SALE ARE AS FOLLOWS:-

1. E-Auction is being held on 'As is where is Basis', 'As is what is Basis', 'Whatever there is' And 'Without Any Recourse Basis', and will be conducted "Online". The E-Auction will be conducted through GICHF approved Eauction service provider "M/s.4 closure"

2. The intending bidders should register their names at portal https://bankauctions.in/ and get their user-id and password free of cost. Prospective bidders may avail online training on E-Auction from the

service provider M/s. 4closure, # 605 A, 6th Floor Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad – 500038, Telangana. Office Land Line No: 040-23736405; Backend team: 8142000062 / 66, T. Jayaprakash Reddy - 8142000064, prakash@bankauctions.in, Any Property Query: Aneesh Aswal -8171428887, Kumar Sawrabh -9540200011, Abhishek -98734 91527, Lohit V. Tata -98762 64551 3. The E-auction Sale is subject to the conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rules 2002 and the terms and conditions mentioned hereunder/website also subject to conditions in the offer/bid documents to be submitted by the intending/participating bidders.

4. Every bidder is required to have his/her own email address in order to participate in the online E-auction. 5. Once Intending Bidder formally registers as a qualified tenderer before authorized officer of GICHF, will have to express his/her interest to participate through the E-auction bidding platform, by submitting document. It shall be the tenderer's/online bidder's sole responsibility to procure his/her login ID and password from the E-auction service provider.

6. The aforesaid properties shall not be sold below the reserve price mentioned above. 7. Intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit/s (EMD) @ 10% of the abovesaid respective reserve prices, by way of DD/RTGS/NEFT favouring GIC Housing Finance Ltd. Bank

details are as follows: Bank Name: HDFC BANK LTD, A/c No: 57500000243093 - A/c Name: GIC HOUSING FINANCE LTD E AUCTION COLLECTION, Branch Name: FORT Address: HDFC BANK LTD., GROUND FLOOR, JEHANGIR BUILDING, MG ROAD, FORT, MUMBAI-400001 IFSC Code - HDFC0000060.

8. The said Deposit/s shall be adjusted in the case of successful bidder/s, otherwise refunded. The said earnest money deposit/s will not carry any interest.

9. The offer/s along with the aforesaid Earnest Money Deposit (EMD) can be submitted either "online" through the portal https://bankauctions.in/ along with the EMD and scanned copy of KYC documents including PAN Card & address proof, to the service provider or through submitting sealed cover comprising bid form, EMD and KYC documents and it should reach the respective branch

offices of GIC Housing Finance Ltd., mentioned above on or before EMD Submission due date. 10. That, after opening the tenders, the intending bidders who have submitted their bids for not less than the reserve price will be given an opportunity at the sole discretion of the Authorized Officer to

11. The successful bidder/s shall deposit 25% of the amount of sale price, adjusting the EMD paid already, immediately on acceptance of offer by the Authorized officer in respect of the sale, failing

which the earnest money deposited shall be forfeited. The balance 75% of the sale price is payable within 15 days from the date of confirmation of the sale solely at the discretion of the Authorized Officer. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited. The Authorized Officer shall not be required to give any further notice of

12. Bidders are bound by the principle of "caveat emptor" (Buyer Beware) and advised to conduct their own due diligence to find any encumbrances, statutory liabilities, arrears of property tax, Income Tax, Excise Duty, Labour Dues, electricity and maintenance dues etc., of the firm or Secured Asset. The Successful bidders shall have to bear all outgoing i.e., municipal taxes, maintenance/society charges, electricity charges, water charges, stamp duty, registration charges, (if applicable), if any and all other incidentals charges, cost including all outgoing relating to the respective properties

13. The successful bidder should bear the charges/fees payable on sale certificate, such as registration fees, stamp duty, taxes, or any other duties payable for getting the secured asset transferred in his/her name

15. The notice is hereby given to the Borrower/s, Mortgagor/s and Guarantor/s that they can bring the intending buyer/purchaser for purchasing the properties mentioned above, as per the terms and Conditions of the EAuction Sale.

14.. The Sale Certificate will be issued only in the name of the successful bidder and only after receipt of the entire /sale price.

16. Inspection of the above said properties can be given on request and as per convenience of Authorized Officer.

17. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers and reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason thereof. 18. GICHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the properties as mentioned above. The property shall be auctioned on "As is where is", "As is what is", Whatever there is" and without any recourese basis.

For detailed terms and Conditions of the sale and full description of the properties please refer to the website of approved e-auction service provider M/s.4 closure and website https://Bankauctions.in.

Sd/-, Authorised Officer,

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1968PLC004962

Regd. office: D-13/4,Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020. Tel.: 011-35008342 | Email: info@salora.com | Visit us at : www.salora.com

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

							(Ks. In lacs)
		Quarter Ended			ths Ended	Year Ended	Year Ended
Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2023 Audited	31.03.2022
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited		Audited
Total Income from operations	2,323.36	3,556.48	818.38	9,305.38	6,446.09	11,628.74	7,264.47
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(270.00)	(730.26)	3,547.71	(914.47)	(775.40)	(1,184.47)	2,772.31
Net profit / (loss) for the period after tax	(215.85)	(545.99)	2,986.97	(681.09)	(582.33)	(896.94)	2,404.64
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(221.22)	(546.72)	2,985.69	(683.29)	(583.98)	(904.51)	2,401.71
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet	-	1	-	: H	-	4,967.32	5,871.83
Earning per Share (of Rs. 10/- each)	1	7	10 10				
Basic & diluted earning per share (before exceptional items)	(1.12)	(0.92)	(5.93)	(2.46)	(1.87)	(3.58)	(8.99)
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(2.45)	(6.20)	33.91	(7.73)	(6.61)	(10.18)	27.30
Mataci							

Notes:

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 25 May 2023 & these results have been audited by the Statutory Auditors of the company.

Exceptional items during the guarter and year ended, include the following:

(a) Inventory written down by Rs.292.11 lacs during this quarter on liquidation of old inventories till date based on actual realized value. This is in line with the company's continuous effort to optimize its operational efficiency and resources, whereby it has written down inventories aggregating to Rs.912.94 lacs during the year, due to obsolescence caused by change in technology, slow inventory movement and part of discontinued product categories etc. (b) Excess amount of Rs.144.60 lacs which is received as final consideration as per Transfer Deed of Lease Hold Rights against amount considered earlier towards

sale of Noida Land in the previous year. Besides this, a recovery of partial expenses amounting to Rs.35.00 lacs towards expenses paid to Noida Authority in

(c) Recognition of loss amounting to Rs.33.23 lacs based on final realized amount, in comparison to estimated realizable value for Assets Held for sale in the The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this

matter shall stand as it is. However, recently two of similar nature of cases has been decided in the favour of the appellant by the CESTAT and Honourable Supreme Deferred tax assets Rs.2108.33 lacs as at 31st March, 2023 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency resulting in generation of

In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division". Figures for the guarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto

7. Previous guarters/year ended figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to the current guarters/year presentation.

GOPAL SITARAM JIWARAJKA CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

These audited financial results can be accessed on the website of the Company i.e. www.salora.com and also on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com



B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN:L74899DL1989PLC036148) Read. Off: 409. 4th Floor. DLF Tower-A. Jasola. New Delhi - 110025 **Ph:** 91-11-40500300: **Fax**: 91-11-40500333 Website: www.blkashyap.com, Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

						(III Lakiis	
		CONSOLIDATED					
SI.	PARTICULARS		Quarter ended	3	For the year ended		
No.		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
		(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from operations	27,592.14	25,276.70	32,425.30	110,997.61	115,751.16	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	1,868.38	930.31	(1,346.23)	5,651.14	2,732.31	
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax after Exceptional items)	(2,265.84)	1,601.11	2,921.84	2,060.73	6,592.39	
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax after Exceptional items)	(3,192.73)	3,659.47	1,839.91	2,213.87	4,394.68	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the						
	period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3,213.21)	3,652.73	1,733.21	2,173.19	4,367.75	
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of						
	previous year	4,215.20	45,428.40	40,042.01	42,215.20	40,042.01	
8	Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)						
	Basic:	(1.42)	1.62	0.82	0.98	1.95	
	Diluted:	(1.42)	1.62	0.82	0.98	1.95	

Notes: Standalone financial information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulation 2015

ı	PARTICULARS		Quarter ende	For the year ended		
ı			31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
ı		(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
ı	Total Income from operations	27,036.65	24,819.76	31,952.19	109,167.80	113,998.39
ı	Profit before tax	2,410.67	1,344.02	3,496.03	7,362.18	9,143.64
ı	Profit after tax	1,718.60	981.05	2,470.86	5,201.37	6,597.54

2) The above is an extract of the detailed format of the Standalone & Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended 31st March, 2023 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).

3) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2023.

B.L. Kashyap and Sons Limited Vineet Kashyap **Managing Director**

(DIN: 00038897)

(In Lakhs)

Place: Mashobra, Himachal Pradesh Dated: 26th May, 2023



ARM BRANCH KARNAL PHONE NO. 0184-4041820, 85728-16290 E-mail: cb6290@canarabank.com

E-AUCTION SALE NOTICE

WE BUILD YOUR WORLD

SALE NOTICE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" in Eauction arranged by the service provider M/s CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED Contact: Mr. Pakhare DD (9480691777/8553643144). Email id: eauction@ccsl.co.in through the website www.indianbankseauction.com, www.canarabank.com, www.ibapi.in

LAST DATE OF RECEIPT OF EMD IS 22.06.2023 UPTO 5:00 P.M.

DATE OF E-AUCTION IS 26.06.2023 12:30 PM TO 1:30 P.M.

(with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

SL No.	Branch Name/ Name & Address of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	IFSC CODE
			(III KS.)	Possession Type		
1.	Canara Bank- ARMB, Novelty	EMT of Residential cum commercial house measuring		Rs	Rs.	209272434
	Road, Karnal branch	69 40 Sn Vde cituated at		62.05 Lakh	6.21 Lakh	CNRB0006290
	(M) 0184-4041820, 85728-16290	House No- 2M/37, NIT,	other charge:	s .(minus	500000 GARGON WARREN TO THE AND	
	E-mail: cb6290@canarabank.com	200400000000000	SYMBOLIC POSSESSION			
	1. M/s Shilpa Enterprises	Anju Bhatia W/o Late. Sh. Ram	Chander Bhatia	VID - 177 - 177 - 17		

(Borrower) 2-M/37, BP, NIT, Faridabad - 121001. 2. Smt. Shilpa Bhatia W/o Sh. Manoj Bhatia (Proprietor) House No. 3-E/83, NIT, Faridabad-121001. 3. Smt. Anju Bhatia W/o Late Sh. Ram Chander Bhatia (Guarantor/Mortgagor) Address 1: House No. 3-E/83, NIT, Faridabad-121001. Address 2: House No. 2-M/37, BP, NIT, Faridabad-121001.

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: -The sale shall be subject to the Terms and Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further

conditions. 1. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 2. The e-auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, AND WHATEVER IS THERE" basis. The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances or any other dues to the Government or anyone else in respect of properties (e-auctioned). The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc. 3. All statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser. If any property ID / NOC / Clearances / any other formalities required for registration of IP in the name of bidder, the formalities and charges have to be borne by the bidder. If immovable property (IP) is sold on symbolic possession, it shall not be responsibility of the Bank to deliver physical possession of the IP. Bank shall give only symbolic possession of the IP after sale. 4. It is the responsibility of intending Bidder (s) to properly read the Sale Notice, terms and conditions of e-auction, help manual on operational part of e-auction and follow them strictly. 5. The bidder should ensure proper internet connectivity, power back-up etc. The Bank shall not be liable for any disruption due to internet failure, power failure or technical reasons or reasons / contingencies affecting the e-auction. 6. The successful bidder shall have to deposit 25% of the bid amount, less EMD amount deposited, on the same day or not later than the next working day and the remaining amount shall be paid within 15 days from the date of e-auction.

STATUTORY 15/30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF SARFAESI ACT, 2002

This may also be treated as notice u/s 8 (6) Rule 9 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to borrowers / Guarantors of the above said loan about the holding of e-auction Sale on the above mentioned date. The Borrower / Guarantors / Mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before 15 / 30 days of this notice / the date of auction, failing which the property will be auctioned / sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Authorized Officer, Canara Bank PLACE: KARNAL

GIC HOUSING FINANCE LTD

Date :- 26.05.2023

New Delhi

Place: Ghaziabad/GURGAON/PITAMPURADWARAKA financialexp.epap.in

sufficient profits in the future as anticipated / projected by the management on a prudent basis. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act, which are expiring in the next two years.

> Place: New Delhi. Date: 25th May, 2023

Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year | Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year

उम्मीद हाउसिंग फाइनेस प्रा. लिमिटेड पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809—815, 8वीं मंजिल, टॉवर—ए, इएमएएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर- 61, गुरुग्राम - 122002 (हरियाणा), सीआईएनः U65922HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV { नियम –8(1)देखें} कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, निम्न विवरण के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ भूगतान की वास्तविक तिथि तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चूकाने के

उक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहे हैं,एतद्दवारा ऋणी / सह-उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम के धारा 13 के उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदान किए गए शक्तियों के प्रयोग में इस तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी / सह-उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ लेन-देन करने पर यहाँ निर्दिष्ट राशि के साथ आगे ब्याज, लागत और शुल्क संबंधित तिथियों से पूर्ण भूगतान तक की राशि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है। उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभृतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकती , सह—उधारकती, गारटर का नाम और पता, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण	माग सूचनाः दिनांक	रुपये में देय राशि
शबनम पत्नी रहीस (उधारकर्ता) रहीस पुत्र रफीक (सह—उधारकर्ता), दोनों निवासी : 349, लछीपुरा राम पार्क	चर्च कॉलोनी की आबादी के ग्राम इलायचीपुर, परगना—लोनी, तहसील	11 — नवंबर — 2023	रु.1,147,997.75 / – (ग्यारह लाख सैंताली
प्रक्सटेंशन, लोनी, गाजियाबाद—201102, लैन.सं.	एवं गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित खसरा संख्या ४२७ से संबंधित १२० वर्ग गज के प्लॉट नं. १०८ वाली संपत्ति के सभी		हजार नौ सौ सत्तानवे और पचहत्तर पैसे मात्र) के साथ 12
LXLAX02918&190001949, ऋण समझौता दिनांकः 24-जून-2018	हिस्से और अंश। चौहद्दी :– पूर्व–15 फुट चौड़ा रास्ता(तक्कड़), पश्चिम–10	तिथिः 25—मई	नवंबर 2022 की तारीख से आगे के
ऋण राशि रु. 11,62,993 / —	फुट चौड़ा एवं 10 फीट रास्ता टक्कर, उत्तर— मुन्ना का प्लॉट, दक्षिण— राम	2023	ब्याज।

गौरव त्रिपाठी,— 9811329550 स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा दिनांक : 27 मई 2023 उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

सिंह का प्लॉट।

गुमशुदा महिला की तलाश



सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि एक महिला जिसका नाम सविता, पत्नी मुकेश कुमार, निवासी स्टाफ क्वार्टर नं. 3, राम बोध घाट ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली। आयु 29 वर्ष, कद 5', रंग गोरा, गोल चेहरा, पतला शरीर, जो लाल रंग की साड़ी में पीले फुल, पीले रंग का ब्लाउज तथा पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए दिनांक 06.05.2023 को अपने से लापता है। स्थानीय

पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी इस महिला के बारे में पता नहीं चल सका है। इस संदर्भ में एक डीडी नं. 90ए दिनांक 06.05.2023 को थाना विवेक विहार, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी व्यक्ति को इस लापता महिला के बारे में कोई भी जानकारी या सूचना हो तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें।

ईमेलः cic@cbi.gov.in फैक्सः 011-23011334 फोन नं: 011-23014046, 23015218 DP/5178/SHD/2023

वेबसाइटः http://cbi.nic.in

थाना प्रभारी थानाः विवेक विहार, दिल्ली फोनः 9999668214

डच बैंक एजी

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना

जबकि, अघोहस्ताक्षरकर्ता ने डच बैंक एजी, इंडिया ("बैंक"), जिसका पंजीकृत कार्यालय भूतल एवं 14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 10-02-2023 निर्गत की थी, जिसमें मैसर्स थर्मोकिंग ("ऋणकर्ता"), श्री प्रदीप खन्ना, श्री दिव्यांशु खन्ना एवं सुश्री नीरा खन्ना (''सह—ऋणकर्तागण'') को, सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि रु. 8,65,90,042.80/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार बयालिस एवं अस्सी पैसे मात्र), और उपर्युक्त राशि पर संविदागत दरों पर भावी ब्याज, भुगतान एवं/अधवा वसूलीकरण की तिथि तक राशि पर दैनिक आधार पर उपगत एवं प्रोदभूत होनेवाले आकरिमक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभूगतान करने को कहा गया

यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता राधि का पूर्ण प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 26 मई 2023 को, सांकेतिक / रचनागत अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 8,65,90,042.80/- (रुपये आठ करोड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार बयालिस एवं अस्सी पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु बैंक के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण प्रतिभूत परिसंपत्ति

समस्त वह स्वयं–निहित आवासीय संपत्ति :- जो भूखंड सं. 68, ब्लॉक नं. 'जी' के रूप में मसजिद मोठ, नई दिल्ली में स्थित है, जिसका अधिमापन 180 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार अतिरिक्त एवं परिसीमित है: उत्तर- सड़क, दक्षिण- भूखंड सं. 59, पूर्व- भूखंड सं. 69, पश्चिम- भूखंड सं.

विनांक : 27-05-2023 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी, डच बैंक ए.जी

क्लिक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कब्जा सुचना

(नियम 8(1) (परिशिष्ट चतुर्थ) जबकि, अधोहस्ताक्षरी, **क्लिक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (CLIX),** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी, पंजीकृत कार्यालय: अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर प्लॉट नं. 23, 5वां तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंदर प्लेस, नई दिल्ली-110008, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमवाली (2002 क (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत दिनांक 16,03,2023 को 1. नाजिम पुत्र सागीर अहमद निशा खैरून पत्नी सागीर अहमद, 3. सागीर अहमद पुत्र मेहरबान, सभी निवासी: मकान न 1790, गली नं. 18, राजीव गांधी नगर, न्यू मुस्ताफाबाद, उत्तर पूर्व, दिल्ली-110094 क्रमांक 1 यहां भी: डी2/266 गली नंबर 2, नेहरू विहार, दवलपुर, दिल्ली-110094, को दिनांक 15,03,2023 तक देव राशि रू. 27,96,419/- (रुपये सत्ताईस लाख छियानवे हजार चार सौ उन्नीस केवल) तथा आगे का ब्याज व अन्य खर्चे सुचना मिलने के 60 दिन के भीतर भगतान करने का आदेश दिया गया था।

शेष रकम का भुगतान नहीं करने पर एतद् द्वारा विशेषतय कर्जदार को एवं सामान्यत: जनसाधारण को सचित किया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम 13 के नियम : के साथ पढ़े जाने वाले उप-धारा 4 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 24.05.2023** को कब्जा ले लिया गया है।

खासकर कर्जदार एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इन सम्पत्ति(यों) का लेन-देन न करें तथा इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन CLIX को दिनांक 15.03.2023 तक देय राशि रू. 27,96,419/- (रुपये सत्ताईंस लाख छियानवे हजार चार सौ उन्नीस केवल)

तथा आगे का ब्याज व अन्य खर्चे के भगतान के अनुरूप होगा। सुरक्षित संपत्ति के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8)

के प्रावधानों के लिए उधारकर्त्ता का ध्यान आमंत्रित किया गया है। अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

संपत्ति: आवासीय प्लॉट नं. ए-21 द्वितीय तल छताधिकार सहित, खसरा नंबर 1208, हयात एन्क्लेब, लोनी, परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद क्षेत्रफल 45 वर्ग गज यानि 37.62 मीटर में 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 रसोई, 1 टॉयलेट और संलग्न बालकनी के साथ बाथरूम के सभी भाग। चारदीवारी: उत्तर- फ्लैट नंबर 20-ए, दक्षिण: फ्लैट नंबर 22-ए, पूर्व: फ्लैट नंबर 31-ए, पश्चिम: 30 फीट चौड़ी सड़क

स्थान: लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. विनांक: 24,05,2023

प्राधिकृत अधिकारी क्लिक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पशुपति फिनकैप लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा प्रधान कार्यालयः 127-128, त्रिभुवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110065 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

				, ,	
विवरण	समाप्त 3	समाप्त 3	समाप्त 3	समाप्त 12	समाप्त 12
	महीने	महीने	महीने	महीने	महीने
	31 मार्च, 23	3 दिस. 22	31 मार्च, 22	31 मार्च, 23	31 मार्च, 22
	समीक्षाकृत	समीक्षाकृत	समीक्षाकृत	अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	K - +	Ö -		4 4
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि)(कर एवं असाधारण मदों					
से पूर्व)	(5.02)	(1.32)	0.98	(13.31)	0.54
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण					
मदों के बाद)	(5.02)	(1.32)	0.98	(13.31)	0.54
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण					
मदों के बाद)	(5.02)	(1.32)	0.98	(13.31)	0.54
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेत (कर के बाद)					
लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से					
शामिल)	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी	470	470	470	470	470
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के					
अतिरिक्त आरक्षित)					
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध					
प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
क) मूल	-	(0.02)	-	(0.28)	0.01
ख) तरल	-	(0.02)	-	(0.28)	0.01
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध					
प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
क) मूल	-	(0.02)	-	(0.28)	0.01
ल । बाल		(0.02)		(0.20)	0.01

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

विदित जैन

कानुनी प्रकोष्ठ HDFC BANK पॉट # 31. गजरुगड़ औद्योगिक क्षेत्र, टावर-ए, पहली वॉजेल, तिवाजी वार्ग मोती नगर, नई दिल्ली - 110015

"परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) के परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8/6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदहारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नीटेस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्ज़ा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसे (ii) मैसर्स एस.एस. स्पोटर्स , इसके प्रोपराइटर श्री सनील कमार, (ii) श्री सुनील कुमार और (iii) श्रीमती पाठल आहुजा के माध्यम से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सुरक्षित लेनदार कें बकायों 01.03.2022 के अनुसार रु. 89,46,225/- के साथ लागू ब्याज और शुल्क की वसुली के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है, पर 12 जुलाई 2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मृत्य रु. 45,00,000/- और धरोहर राशि रु. 4,50,000/- होगा। अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

संपत्ति सं. 240, माप-60 वर्ग मीटर , पहली मंजिल, अंबरहाई, द्वारका आवासीय योजना, सेक्टर-19, द्वारका

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया एचडीएफसी बैंक लिमिटेंड, सिक्योर्ड क्रेडीटर की वेबसाइट में दिए गए लिंक https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices को देखें। अधिकृत अधिकारी एकडीएफसी बैंक लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

> अन्ना इफ्रास्टक्चर लिमिटेड सीआईएनः L65910UP1993PLC070612 रजि. कार्यालय : शॉप नं. 1 और 3, ई—14/6, पहली मंजिल,

शांता टावर, संजय प्लेस, आगरा — 282002 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

क्	विवरण	3 माह	3 माह समाप्त	3 माह	चालू	पिछला
		समाप्त (31.03.2023)	(31.12.2022)	समाप्त (31.03.2022)	लेखा वर्ष समाप्त (31.03.2023) लेखापरीक्षित	लेखा वर्ष समाप्त (31.03.2022 लेखापरीक्षि
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	28.57	39.48	9.29	112.63	49.64
2	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	11.3	14.89	(3.03)	29.49	(5.39)
3	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	11.3	14.89	(3.03)	29.49	(5.39)
4	कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाम / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	9.37	10.94	(2.56)	22.88	(4.91)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद और असाधारण)]	9.37	10.94	(2.56)	22.88	(4.91)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	380	380.00	380.00	380.00	380.00
7	आरक्षितों (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	N.A.	N.A.	N.A.	576.88	554.00
8	निवल मूल्य	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A
9	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपए में) (क) असाधारण वस्तुओं के पहले ईपीएस – बेसिक और डाइल्यूटेड	0.25	0.29	(0.07)	0.60	(0.13)
l	(ख) असाधारण वस्तुओं के के बाद ईपीएस – बेसिक और डाइल्यूटेड	0.25	0.29	(0.07)	0.60	(0.13)

उपरोक्त सेबी (सचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉब् एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से

अनिल कुमार अग्रवाल स्थान : आगरा (पूर्णकालिक निदेशक) दिनांक : 26 मई 2023

INDUSIND BANK LIMITED Regd. Office: IndusInd Bank Ltd., 2401 Gen. Thimmayya Road (Cantonment), Pune - 411 001, India

Zonal Office: IndusInd Bank Ltd New Tower, Hyatt Regency Complex, Block A, District Centre Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi - 110066 Branch Office: IndusInd Bank Ltd, Block A, Sushant Lok, Phase I, Tower B, First India Place, Gr. Floor, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurugram, Haryana-122002

PUBLIC NOTICE As per RBI guidelines dated August 18, 2021 this public notice is hereby given as there are rental outstanding on the following safety deposit lockers located at Gurugram FIP branch of Industrid Bank

Sr. No.	Locker No.	Name of Hirer	Address of Hirer	Amount due	Rental Outstanding sind (period in months)
1	LK 14/I	Vandana Kapoor	H.No.968, Sec 14 Gurgaon, Haryana-122002	24500/-	135
2	LK 17/I	Gagan Chadha	N-14 /17, DLF Phase 3, Gurgaon, Haryana-122002	36000/-	127
3	LK 94/II	Vandana Chopra/ Aseem Chopra	H.No.786, Saraswati Vihar , Chakkarpur, Gurgaon, Haryana-122002	22000/-	120
4	LK 97/II	Sarojni Bhatt	H.No.803, Siddhartha Apartment, Plot No. 31, Sec 56, Gurgaon, Haryana- 122005	52000/-	124
5	LK 108/II	Umed Singh	H.No.443, Saraswati Vihar , Chakkarpur, Gurgaon, Haryana-122002	24000/-	118
6	LK 115/II	Gurdeep Khangura	H.No.25 D, Sarabha Nagar, Ludhiana, Punjab-141001	18000/-	120
7	LK 116/II	Shivani Vaid	802. Saraswati Vihar, Chakkarpur Gurgaon	22000/-	124
8	LK 16/III	Anjali/ Aditya Singh	H-89, Residency Green, Greenwood City, Sector-46, Gurgaon, Haryana-122001	22000/-	125
9	LK 22/III	Manish Mahajan	H.No.139, Sector 14, Gurgaon, Haryana-122001	29000/-	124
10	LK 50/III	Vinod Arora/ Sonali Arora	K-109, Garden Homes, South City-1, Gurgaon, Haryana-122002	23000/-	124
11	LK 22/I	Rajat Wadhera	H.No. B-147 A, Sushant Lok-1, Gurgaon, Haryana- 122001	28000/-	126
12	LK 35/III	Narinder Pal Singh / Amarjeet Kaur	Magazine Road, Opp- Parade Mandir, Saugor Cantt, M.P470001	14000/-	116
13	LK 28/III	Lalita Mathur/ Raghuvansh	607 Hemkunt Tower 98, Nehru Place, New Delhi-	12000/-	121

indusind Bank has served due notice through registered post about the arrears of rent to the above nentioned individuals, twice at the address as registered with the Branch. As per the Terms and Conditions of the Locker Agreement, IndusInd Bank Ltd is proposing to open

the safety deposit lockers after 30 days from the date of this notice, to take custody of the locker contents on account of the rent being overdue and unpaid for three consecutive years. IndusInd Bank Ltd will not be responsible in any manner to any person for the sale of the contents of

For IndusInd Bank Ltd. **Branch Manager**

the lockers after the said notice period. Place: Gurugram FIP branch Date: 27.05.2023

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली — 110057

फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआईएन: U65192DL2016PLC30148 संपर्क पता:- भवन संख्या 27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र, बसंतलोक, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057

कब्जा-सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबकि अधोहरताक्षरी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते.

ाने के लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया। उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतदवारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्तावारी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले

हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के मीतर चुक.

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी

दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उठिलखित तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा

(a) के प्रावधानों के लिए उडाएकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्याः	बाध्यताधारी (ऑ) / कानूनी	मांग सूचना की तिथि	कस्जा— तिथि
	चराराधिकारी(ऑ) ध्यानूनी	/मांग के	(रचनात्मक /
	प्रतिनिधि(ऑ) का नाम	अनुसार चरित	भौतिक)
HHFNSPHOU21000015176 & HHFNSPLAP21000016750	मुकंश सक्तेना. सोनी सक्तेना	30/08/2022, दिगांक 25/06/2022 के अनुसार क	24/05/2023 (मीतिक)

प्रतिभृति परिसम्पत्तियों / अवल संपत्तियों का विवरणः मलेट नंबर एसएफ-01, दूसरी मंजिल, सामने की तरफ छत के साथ, प्लॉट नंबर सी1/37, बीएलएक, अंकुर विहार, गांव सद्स्लाबाद, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 रिवत समाप्ति के समी टुकडे और अंश , जिसका क्षेत्रफल 81.28 वर्ग मीटर है। आवासीय मुखंड सी-1/37 की चीहरी -पूर्व-प्लॉट संख्या सी-1/38; पश्चिम-प्लॉट नं. सी-1/36; उत्तर- प्लॉट नं. एम. एम-81; दक्षिण- 12 फुट चौड़ी सडक:

HHFNSPHOU20000009701	राजेश दुग्गल, राजेश	15/03/2023, दिनास 14/03/2023	25 / 05 / 2023
& HHFNSPIPL20000009724	दुग्गल की पत्नी सोनिया	के अनुसार क. 27,56,801/-	(प्रतीकात्मक)
दिल्ली-110059 में खसरा नंबर 21	/18/1, प्लॉट नंबर 127 व	पुर खुदं, मोडन गार्डन, ब्लॉक-एस, र भीर 128 के संपत्ति वाले हिस्से पर है अधिकार के साथ निर्मित तीसरी र	लगभग 75 वर्ग

गज के आनुपाति साइड एलएथएस सुविधाओं के सार	क क्षेत्र के साथ छत के अधिकार/छण्णा के के साथ मू तल पर आम कार पार्किंग की इ सभी अधिकारों, शीर्षक हित सहित। चौहदी फीट बीढ़ी सड़क, पश्चिमः एक ही प्लीट पर	अधिकार के साथ निर्मित तीसरी जगह के साथ बिक्री विलेख में उत्तर: एक ही प्लॉट पर अन्य प	मंजिल का फ्रंट उल्लिखित समी
HHFDELHOU	कमलेश कुमार, नीतू कुमार, विनसॉफ्ट	19/01/2023, दिनांक	25 / 05 / 2023
18000000106	एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, डोंगरा	17/01/2023 के अनुसार	(प्रतीकात्मक)

एजुकेशन सोसाइटी ₹. 3,24,66,884 / -प्रतिनृति परिसम्पत्तियाँ / अचल संपत्तियों का विवरणः विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 में स्थित फ्रीहोल्ड बिल्ट-अप संपत्ति संख्या एफ-9 की छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल , क्षेत्र की माप 324 वर्ग मीटर है, जिसमें जमीन के नीचे समानुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकारों के साथ

स्टिल्ट फ्लोर में दो कार पार्किंग हैं। बौहदी : उत्तर: प्लॉट नंबर 10 और 11, पूर्व: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: सदक 13.5 मीटर की सदक , पश्चिम: पध दिनांकः 27-05-2023 रथान:- दिल्ली / एनसीआर हरता / -अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

AMTL

ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED

Regd. Off.: LGF, E-8/1, Malviya Nagar, Near Geeta Bhawan Mandir, New Delhi - 110017 Corporate Office: C-4 to C-11, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida-201305 Tel: 0120 6958777, Email: corporate@pkrgroup.in,Web: www.pkrgroup.in CIN # L31401DL2011PLC271394

	Ended 31st March 2023 (₹ in Lakhs) Standalone				Ended 31st	March, 2023		3	(₹ in Lakhs)	
Particulars					Consolidated					
	Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
	Mar-23 (Audited)	Dec-22 (Unaudited)	Mar-22 (Audited)	Mar-23 (Audited)	Mar-22 (Audited)	Mar-23 (Audited)	Dec-22 (Unaudited)	Mar-22 (Audited)	Mar-23 (Audited)	Mar-22 (Audited)
Total Revenue from operations	385.43	351.40	252.73	1,747.17	1,881.38	536.87	399.51	320.69	2,048.02	1,997.67
Profit/(Loss) before exceptional items	(852.12)	(234.28)	(221.86)	(1,144.32)	(283.88)	(342.96)	(236.25)	(244.97)	(636.59)	(267.94)
Exceptional Items (Net - Gain/(Loss))	43.95	1,262,41		1,306.36		43.95	1,262.41	10=	1,188.17	2
Profit/(Loss) before tax and after exceptional items	(808.17)	1,028.13	(221.86)	162.04	(283.88)	(299.01)	1,026.16	(244.97)	551.58	(267.94)
Profit/(Loss) for the period after tax	(808.17)	1,028.13	(221.86)	162.04	(283.88)	(300.47)	1,026.16	(244.97)	550.12	(267.94)
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit' (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(807.74)	1,025.62	(222.14)	162.60	(282.35)	(299.61)	1,033.27	(245.61)	547.24	(269.97)
Equity Share Capital	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA.	NA	9,448.29	9,285.69	NA	NA.	NA	9,330.71	8,783.47
Earnings Per Share (Face value of Rs.5/- each)										
Basic:	(5.31)	(1.46)	(1.38)	(7.13)	(1.77)	(2.14)	(1.47)	(1.53)	(3.97)	(1.67)
Diluted:	(5.31)	(1.46)	(1.38)	(7.13)	(1.77)	(2.14)	(1.47)	(1.53)	(3.97)	(1.67)

Notes: (1) The above Standalone & Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 26th May 2023 and approved and taken on record by the Board of Directors at the meeting held on 26th May 2023. (2) On account of Covid-19 pandemic, the Government of India had imposed a complete nation-wide lockdown on 24th March 2020 leading to temporarily shut down of company's manufacturing facilities and operation. Since then the Government of India progressively relaxed lockdown conditions and has allowed the industry to resume its operations in a phased manner. Again State Govternment of Uttar Pradesh imposed the lockdown on April 2021 onwards due to 2nd wave of Covid-19 Pendamic. The Company's operations and financial results for the quarter and year ended 31st March 2023 have been adversely impacted. Further, the Company has made assessment of its liquidity position from the previous recoverability and carrying value of its assets and liabilities as at 31st March 2023. The Company has considered internal and external sources of information for making said assessment. On the basis of said assessment, the Company expects to recover the carrying amount of those assets and no material adjustment is included in the financial results. The impact of any events and development occurring after the date of financial results for the quarter and year ended 31st March 2023 may differ from the estimates as at the date of approval of these financial results and will be recognized prospectively. Given the uncertainties associated with nature, present condition and longevity of Covid-19, the company will closely monitor any material changes arising out of prevailing economic conditions and impact of the same on the business of the company. (3) These Standalone & Consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS') - 34 Interim Financial Reporting', notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India. (4) The above is an extract of Audited Standalone & Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.pkrgroup.in). (5) No Provision for Deferred Tax Liabilities/ Deferred Tax Assets including current tax has been recognized during the quarter and year ended 31st March 2023 due to carried forward business losses and unabsorbed depreciation. (6) In the aforesaid financials results the figures for the last quarter of the current and previous financial year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the end of third quarter of the current and previous financial year which were subjected to limited review by statutory auditors.

For and on behalf of the Board Advance Metering Technology Limited (P.K Ranade) Chairman-cum-Managing Director

DIN-00005359

(In Lakhs)

B L KASHYAP

Date: 26th May 2023

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN:L74899DL1989PLC036148) Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025

Ph: 91-11-40500300; **Fax**: 91-11-40500333 Website: www.blkashyap.com, Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(In Lakhs) CONSOLIDATED **PARTICULARS** No. 31.12.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 (Audited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 115,751.16 25,276.70 32,425.30 110,997.61 27,592.14 1 Total Income from operations 2 Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) 1,868.38 930.3 (1,346.23)5,651.14 2,732.31 3 Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax after Exceptional items) (2,265.84)1,601.1 2,921.84 2,060.73 6,592.39 4 Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax after Exceptional items) 3,659.47 1,839.9 2,213.87 4,394.68 (3,192.73)5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the 3,652.73 1,733.21 2,173.19 4,367.75 (3,213.21)period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-) 2,254,40 2,254.40 2,254,40 2,254,40 2,254.40 7 Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of 4,215.20 45,428.40 40,042.01 42,215.20 previous year 40,042.0 Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations) (1.42)1.95 (1.42)1.62 0.82 0.98

Notes: Standalone financial information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulation 2015

PARTICULARS		Quarter ende	For the year ended		
TAITIOCEARO	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from operations	27,036.65	24,819.76	31,952.19	· '	,
Profit before tax	2,410.67	1,344.02	3,496.03	7,362.18	9,143.64
Profit after tax	1,718.60	981.05	2,470.86	5,201.37	6,597.54
2) The above is an extract of the detailed format of the Standalone & Consolidated Final	ancial Results	for the quarter	and year ende	d 31st March,	2023 filed with

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the guarter and year ended 31st March, 2023 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).

3) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2023.

B.L. Kashyap and Sons Limited Vineet Kashyap **Managing Director** (DIN: 00038897)

WE BUILD YOUR WORLD



Place: Mashobra, Himachal Pradesh

Dated: 26th May, 2023

एआरएम शाखा करनाल दुरभाष सं.: 0184.4041820, 85728.16290 ईमेलः cb6290@canarabank.com

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की विक्रय सूचना

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय सेवा प्रदाता मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड संपर्कः श्री पखारे डीडी (9480691777/8553643144), ईमेल आईडीः eauction@ccsl.co.in द्वारा वेबसाइट www.indianbankseauction.com, www.canarabank.com, www.ibapi.in के माध्यम से सूव्यवस्थित ई-नीलामी के अंतर्गत "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा

धराज प्राप्ति की अंतिम तिथि 22-06-2023 को सायं 05.00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि 26-06-2023 को अप. 12.30 बजे से अप. 1.30 बजे तक

(विक्रय के समापन तक 5 मिनट अवधि प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)

क्र. सं.		संपत्ति/यों का संक्षिप्त विवरण	विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार कुल देनदारियां	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (रू. में)	आईएफएससी कोड
	,	1		(रू. में)		अधिग्रहण प्रकार
1.	केनरा बैंक-एआरएमबी, नॉवेल्टी	आवासीय सह वाणिज्यिक मकान की ईएमटी जिसकी माप 69.40 वर्ग गज	09.01.2023 के अनुसार कुल	₹.	₹.	209272434
	रोड, करनाल शाखा	है जो मकान नं. 2एम/37, एनआईटी,	देनदारियां रु. 72,68,711.	62.05 लाख	6.21 लाख	CNRB0006290
1	(मो.) 0184-4041820, 85728-16290	फरीदाबाद में स्थित तथा श्रीमती अंजू	63/- साथ म मावा व्याजा	t at a		सांकेतिक अधिग्रहण
	ई-मेलः cb6290@canarabank.com	भाटिया पत्नी स्वर्गीय राम चंद्र भाटिया	एव जन्म शुल्क (वसूला, याद व	साकातक आध्रप्रहण		
	 मैसर्स शिल्पा एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) 	के नाम पर है।	A.:		•	

2-एम/37, बीपी, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, 2. श्रीमती शिप्ला भाटिया पत्नी श्री मनोज भाटिया (स्वामी), मकान नं. 3-ई/83, एनआईटी, फरीदाबाद - 121001, 3. श्रीमती अंजू भाटिया पत्नी स्व राम चंद्र भाटिया (गारंटर/बंधककती), पता 1: मकान नं. 3-ई/83, एनआईटी, फरीदाबाद — 121001, पता 2: मकान नं. 2-एम/37, बीपी, एनआईटी, फरीदाबाद-121001

ई-नीलामी विक्रय के नियम एवं शर्ते:-

विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगी। 1. यहां ऊपर दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किय गये हैं, तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में हुई किसी भी त्रृटि, ब्रुटिपूर्ण–विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 2. ई–नीलामी "जैसी है जहां है, जैसी है जो है, और वहां जो कुछ भी है" आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक, संपत्तियों (ई-नीलामकृत) के संबंध में सरकार या किसी भी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार या किसी अन्य देयक राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि सहित संपत्ति पर निर्धारित ऋणभारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लें। 3. क्रेता को पंजीकरण शुल्कों, स्टांप शुल्क, करों, इत्यादि सहित समस्त सांविधिक देयराशियों / अटेंडेंट शुल्कों / अन्य बकाया देयराशियों का भुगतान वहन करना होगा। यदि बोलीदाता के नाम पर आईपी के पंजीकरण के लिए कोई संपत्ति आईडी / एनओसी / मंजूरी / कोई अन्य औपचारिकता पूरी की जानी आवश्यक है, तो औपचारिकताओं के शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि अचल संपत्ति (आईपी) सांकेतिक अधिग्रहण पर बेची जाती है, तो आईपी के भौतिक अधिग्रहण देने का उत्तरदायित्व बैंक का नहीं होगा। बैंक केवल विक्रय के बाद आईपी का सांकेतिक अधिग्रहण देगा। 4. यह इच्छक बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व है कि वे विक्रय सूचना, ई-नीलामी के नियमों और शर्तों, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर आबंटित सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 5. बोलीदाता को उचित इंटरनेंट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप इत्यादि सुनिश्चित करना होगा। बैंक जो है वह इंटरनेंट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों / आकस्मिकताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25%, जमा की गई ईएमडी राशि घटाकर, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस में, जमा करना होगा और शेष राशि का भूगतान, ई-नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना होगा।

इसे, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 8(6) नियम 9(1) के तहत उपर्युक्त ऋण के उधारकर्ताओं / गारंटरों हेतु उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी विक्रय के आयोजन के बारे में निर्गत सूचना के रूप में भी पढ़ा-समझा जाय। उधारकर्ता/गारंटरगण/बंधककर्तागण को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे इस सूचना/नीलामी की तिथि से 15/30 दिन पहले उपर्युक्त अंकित राशि का, अद्यतनीकृत ब्याज एवं सहायक व्ययों के साथ का भुगतान कर दें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जायेगी/उसका विक्रय कर दिया जायेगा और बकाया राशियों, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15/30 दिवसीय संवैधानिक विक्रय सूचना

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक दिनांक : 26-05-2023,

www.readwhere.com

टिप्पणी:

कृत्ते, पशुपति फिनकैप लि.

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 26.05.2023

